



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,

Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

28 फरवरी 2025

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा ब्याज दरें – फरवरी 2025

फरवरी 2025 माह के दौरान प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की ऋण और जमा ब्याज दरों के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

मुख्य बातें:

ऋण दरें:

- एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) जनवरी 2025 में 9.32 प्रतिशत (दिसंबर 2024 में 9.25 प्रतिशत) रही।
- एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएलआर दिसंबर 2024 में 9.88 प्रतिशत से घटकर जनवरी 2025 में 9.87 प्रतिशत हो गई।¹
- एससीबी की एक वर्ष की माध्यिका निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) जनवरी 2025 में 9.0 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2025 में 9.05 प्रतिशत हो गई।

जमा ब्याज दरें:

- एससीबी की मीयादी जमाओं पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) दिसंबर 2024 में 6.57 प्रतिशत की तुलना में जनवरी 2025 में 6.56 प्रतिशत रही।
- एससीबी की बकाया रुपया मीयादी जमा पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) जनवरी 2025 में 7.02 प्रतिशत (दिसंबर 2024 में 7.0 प्रतिशत) थी।¹

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2282

अजीत प्रसाद

उप महाप्रबंधक (संचार)

¹ बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।